

**भारत में पहली शाखा खोलने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त करने के लिए  
विदेशी बैंक द्वारा दिया जाने वाला आवेदनपत्र**

**I. सामान्य सूचना**

1. आवेदक बैंक का नाम :
2. निगमन का स्थान और तारीख :
3. प्रधान कार्यालय का पता :

**II. स्वामित्व और प्रबंधतंत्र**

1. निदेशकों के नाम और पते तथा उनकी योग्यता और मुख्य व्यवसाय की सूची

नाम और पता	योग्यता	मुख्य व्यवसाय
------------	---------	---------------

2. मताधिकार वाले 10 प्रतिशत स्टॉक या उससे अधिक स्टॉक रखनेवाले शेयर धारकों के ब्योरे और उनका मुख्य व्यवसाय
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी का नाम
4. प्रधान कार्यालय के उस वरिष्ठ पदाधिकारी का नाम और पदनाम, जो भारत में बैंक के परिचालनों के लिए उत्तरदायी होगा

**III. संरचना**

1. सहायक और सहयोगी कंपनियों को दर्शाते हुए संगठनात्मक चार्ट
2. ऐसे देश जहाँ बैंक और उसकी सहायक कंपनियाँ परिचालन कर रही हैं
3. देशी और विदेशी शाखाओं की संख्या

**IV. वित्तीय स्थिति**

1. पिछले तीन वर्षों के वित्तीय विवरणों के आधार पर बैंक की वित्तीय स्थिति की विशेषता
2. टीयर - I और टीयर - II पूंजी को अलग-अलग दर्शाते हुए बीआइएस मानकों के अनुसार पूंजी पर्याप्तता अनुपात
3. अपने देश में रैंकिंग और वैश्विक रैंकिंग
4. अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा क्रेडिट रेटिंग

## **V. पर्यवेक्षीय व्यवस्था**

1. पर्यवेक्षीय व्यवस्था के ब्यौरे, जो उद्गम देश में बैंक पर लागू हैं
2. विदेशी बैंकों के प्रवेश पर उद्गम देश के विनियम

## **VI. भारत के साथ वर्तमान संबंधों के ब्यौरे**

1. भारतीय बैंकों के साथ प्रतिनिधि बैंकिंग संबंध के ब्यौरे तथा उन्हें दी गयी ऋण व्यवस्था या अन्य ऋण सीमाओं की कुल राशि
  2. भारतीय कंपनियों को दिये गये विदेशी मुद्रा ऋण और उनके साथ किये गये अन्य प्रकार के कारोबार यथा भारतीय कंपनियों की ईक्विटी / ऋण निर्गम की हामीदारी आदि
- 

## **VII. भारत में प्रस्तावित शाखा परिचालन के ब्यौरे**

1. शाखा का स्थान :
  2. प्रस्तावित आरंभिक पूंजीकरण के ब्यौरे :
  3. भारत में तैनात किये जाने वाले विदेशी पदाधिकारियों की संख्या :
  4. भारत में शाखा खोलने का प्रयोजन, भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों को होने वाले लाभ और प्रस्तावित गतिविधियाँ
  5. कारोबार योजना
- 

## **VIII. संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज़**

1. संस्था के अंतर्नियम और बहिर्नियम तथा ऐसे समान दस्तावेजों की प्रतिलिपियाँ
  2. पिछले तीन वर्ष के वित्तीय विवरण
  3. पर्यवेक्षीय प्राधिकारी का प्रमाणपत्र कि आवेदक बैंक, बैंक के रूप में समुचित रीति से प्राधिकृत है, उसकी अच्छी प्रतिष्ठा है और वह समेकित पर्यवेक्षण के अधीन है।
  4. स्वदेश के पर्यवेक्षक / विनियामक द्वारा भारत में शाखा खोलने की अनुमति देने वाले अनुमोदन / प्राधिकरण की प्रतिलिपि
  5. बैंक के बोर्ड का अनुमोदन पत्र
-